

अंतरिक्ष विभाग/इसरो ई-खरीद पोर्टल

विदेशी विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया

अंतरिक्ष विभाग/इसरो ने विभाग की खरीद गतिविधियों को संचालित करने हेतु ई-खरीद पोर्टल बनाया है। यह साइट सक्रिय है तथा URL <https://eprocure.isro.gov.in> पर इसका अभिगम किया जा सकता है।

विदेशी विक्रेताओं को निम्नलिखित केंद्रों/यूनिटों की निविदाओं को देखने/उनका उत्तर देने के लिए अंवि/इसरो के ई-खरीद पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम
2. इसरो उपग्रह केंद्र (आईजेक), बेंगलोर
3. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार, श्रीहरिकोटा
4. द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), वलियमला
5. अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (सैक), अहमदाबाद
6. इसरो दूरमिति, अनुवर्तन एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रेक), बेंगलोर
7. इंसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ), हासन
8. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद
9. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद
10. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), चंडीगढ़
11. इसरो मुख्यालय, बेंगलोर
12. एंट्रिक्स, एनई-सैक एवं एनएआरएल

कंपनी के मात्र प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही विक्रेता पंजीकरण किया जा सकता है। उनके पास निम्नलिखित चीजें होनी अपेक्षित हैं:-

1. भारत के प्रमाणित प्राधिकारी (सी.ए) द्वारा जारी अंकीय प्रमाणपत्र
2. पत्राचार हेतु कंपनी का ई-मेल आईडी

पंजीकरण प्रक्रिया में विक्रेता पंजीकरण और सामग्री नामिकायन किया जाना है। पंजीकरण कर विक्रेता उपर्युक्त उल्लिखित केंद्र/यूनिट द्वारा जारी सार्वजनिक निविदा में भाग ले सकते हैं। सीमित निविदा (एसटी)/ एकल निविदा (एलटी) में भाग लेने हेतु सामग्री नामिकायन किया जाना अनिवार्य है। सीमित निविदा, एकल निविदा के लिए पूछताछ प्राप्त हेतु, विक्रेताओं को संबंधित केंद्र/यूनिट की सामग्री की निर्धारित श्रेणी में नामिकायन कराना अनिवार्य है।

विदेशी विक्रेताओं के लिए अंकीय प्रमाणपत्र के संबंध में अनुदेश

1. विदेशी विक्रेता तभी हमारे ई-खरीद पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, जबकि उनके पास मात्र भारतीय सीए द्वारा जारी वैध अंकीय प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। वर्तमान अंकीय प्रमाणपत्र से विक्रेता रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अन्यथा विक्रेता को नया अंकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

2. विदेशी विक्रेता लाइसेंस प्राप्त सीए (प्रमाणित प्राधिकारी) से क्लास III डीसी (अंकीय प्रमाणपत्र) प्राप्त करें। वर्तमान में निम्नलिखित संगठनों में प्राधिकृत सीए उपलब्ध हैं:

- (एन) कोड सोल्यूशन सीए(जीएनएफसी)
- सेफस्क्रिप्ट (एसआईएफवाई)
- टीसीएस
- एमटीएनएल
- सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- ई-मुधर
- आईडीआरबीटी

3. विदेशी विक्रेताओं से अनुरोध है कि प्रस्तुत किए जाने वाले प्राधिकृत दस्तावेजों की सूची का विवरण तथा अंकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अन्य वैधानिक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित संगठनों की वेबसाइट देखें।

4. यदि अपेक्षित होगा, तो इसरो विदेशी विक्रेताओं को भारतीय सीए से नया डीसी प्राप्त करने के लिए एक प्राधिकरण पत्र उपलब्ध करा सकता है।